

जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी, बिलासपुर (छ.ग.)
पैरामेडिकल कोर्स (ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन कोर्स सर्टिफिकेट)
15 सीट प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन
(केवल अनुसूचित जन जाति के लिए)

जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी में पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत एक वर्षीय निम्न कोर्स के लिये आवेदन आमंत्रित है—

(1) ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स (द्वितीय बैच)

कुल सीट – 15 (गौरैला पेण्ड्रा मरवाही जिले से – 09 सीट, बिलासपुर जिले के कोटा एवं तखतपुर तहसील से – 03 सीट, मुंगेली जिले के लोरमी ब्लाक से – 03 सीट)

(2) पैथोलॉजी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स (प्रथम बैच) – सीट – 15

कुल सीट – 15 (गौरैला पेण्ड्रा मरवाही जिले से – 09 सीट, बिलासपुर जिले के कोटा एवं तखतपुर तहसील से – 03 सीट, मुंगेली जिले के लोरमी ब्लाक से – 03 सीट)

ये आवेदन अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत योजना के अंतर्गत आमंत्रित हैं तथा उनके सौजन्य से यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क एवं पूर्णतः आवासीय होगा।

आवेदन की पात्रता एवं शर्त :-

1. यह प्रशिक्षण 17-35 वर्ष की केवल अनुसूचित जन जाति की महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए है, जो गौरैला पेण्ड्रा मरवाही जिले/बिलासपुर जिले के तहसील कोटा/तखतपुर तथा मुंगेली जिले के लोरमी ब्लाक के मूल निवासी हो।
2. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पद्धति में 12 वीं कक्षा विज्ञान (जीव-विज्ञान) न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
3. आवेदक की आयु दिनांक 31/12/2024 को 17 से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है –
 - (अ) अनुसूचित जन जाति का स्थायी जीवित प्रमाण पत्र (न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी)।
 - (ब) छत्तीसगढ़ राज्य के गौरैला पेण्ड्रा मरवाही जिला/बिलासपुर जिले के तहसील कोटा/तखतपुर तथा मुंगेली जिले के लोरमी ब्लाक का जीवित मूल निवास प्रमाण पत्र (न्यूनतम तहसीलदार द्वारा जारी)।
 - (स) 10 वीं कक्षा की अंकसूची (जन्म तिथि हेतु)।
 - (द) 12 वीं कक्षा की अंकसूची।
 - (इ) आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी।
 - (फ) आधार कार्ड।
5. यह प्रशिक्षण 1 वर्ष का होगा।
6. आवेदन पत्र दिनांक 14/01/2025 दिन मंगलवार तक जन स्वास्थ्य सहयोग केन्द्र, ग्राम व पोस्ट गनियारी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495112 में शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। पात्र पाये गये आवेदकों की सूची दिनांक 18/01/2025 दिन शनिवार को जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी के ट्रेनिंग सेंटर में प्रदर्शित की जावेगी। यह सूची हमारे वेबसाइट www.jssbilaspur.org पर, ("What we do" section) में "ट्रेनिंग" हेड में जाकर "स्कूल आफ पैरामेडिकल कोर्सेस" के पेज पर भी देख सकते हैं।

Handwritten signature

7. दावा आपत्ति दिनांक 21 जनवरी 2025 शाम 4.00 बजे तक गनियारी में प्रस्तुत की जा सकेगी।
8. चयन के लिए लिखित परीक्षा दिनांक 23/01/2025 दिन गुरुवार सुबह 10.00 बजे जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी में होगी। लिखित परीक्षा में पात्र पाये गए आवेदकों की सूची दिनांक 25/01/2025 दिन शनिवार को ट्रेनिंग सेंटर में चस्पा की जावेगी तथा हमारे वेबसाइट पर भी जारी की जावेगी। साक्षात्कार दिनांक 28/01/2025 दिन मंगलवार सुबह 10:00 बजे से ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जावेगा। दिनांक 31/01/2025 दिन शुक्रवार को अंतिम चयन सूची हमारे वेबसाइट पर जारी की जावेगी।
9. साक्षात्कार में चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सकीय परीक्षण जन स्वास्थ्य सहयोग केन्द्र, गनियारी स्थित अस्पताल में किया जावेगा तथा चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त पाए जाने पर ही उन्हें अंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकेगा।
10. इंगित दस्तावेजों की छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। एक भी दस्तावेज कम होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। इसी प्रकार किसी भी दस्तावेज /सर्टिफिकेट को आगे कभी भी फर्जी पाया जाता है तब प्रशिक्षण निरस्त कर दिया जावेगा तथा प्रकरण शासन को भेज दिया जावेगा। एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

नोट:- 1. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप jssbilaspur.org पर, ("What we do" section) में "ट्रेनिंग" हेड में जाकर "स्कूल आफ पैरामेडिकल कोर्सेस" के पेज से भी प्राप्त किया जा सकता है।

2. आवेदन प्राप्त करने/भेजने हेतु हमारे द्वारा किसी भी प्राइवेट संस्था/कम्प्यूटर केन्द्र/कोचिंग सेंटर इत्यादि को अधिकृत नहीं किया गया है अतः विज्ञापन में दिये निर्देशों के अनुरूप ही आवेदन प्रस्तुत करें।



Balced

की सचिव

जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी

पैरामेडिकल कोर्स (ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन/पैथोलॉजी टेक्नीशियन) हेतु आवेदन पत्र
(केवल अनुसूचित जन जाति के लिए)

जिस एक कोर्स हेतु आवेदन देना चाहते हैं
स्पष्ट नाम लिखें

पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकाएं
एवं फोटो के
ऊपर अपने
हस्ताक्षर करें।

प्रति,
संचालक
जन स्वास्थ्य सहयोग केन्द्र (अस्पताल)
गनियारी, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि (अकों में) :
4. स्थायी पता :
:
:
5. वर्तमान पता एवं फोन नं. :
:
:
6. जाति.
7. शैक्षणिक योग्यता:—
 - (i) कक्षा 10 वीं के प्राप्तांक का प्रतिशत (दशमलव के बाद दो अकों तक)
 - (ii) कक्षा 12 वीं का परीक्षाफल (अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
 - (iii) कक्षा 12 वीं का प्राप्तांक (iv) पूर्णांक
 - (v) कक्षा 12 वीं के बायोलॉजी में प्राप्तांक का प्रतिशत (दशमलव के बाद दो अकों तक)

(vi) 12 वीं के पश्चात् कोई अन्य परीक्षा का विवरण (यदि है, तो) :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान	उत्तीर्ण वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। प्रशिक्षण हेतु चयन होने पर पूरी निष्ठा के साथ प्रशिक्षण लेंगे। ऐसी परिस्थिति के अलावा जिस पर हमारा वश नहीं है, बीच में प्रशिक्षण नहीं छोड़ेंगे। इसकी अवहेलना करने पर प्रशिक्षण पर किया गया व्यय हमसे वसूल किया जा सकता है।

आवेदक के पिता / पति / पालक के हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं स्थायी पता

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं डाक का पता

दूरभाष-

दूरभाष-

दिनांक :

संलग्नक :-

1. स्थायी जाति प्रमाण पत्र
2. मूल निवास प्रमाण पत्र
3. 10वीं कक्षा की अंक सूची
4. 12वीं कक्षा की अंकसूची
5. आय प्रमाण पत्र (स्पष्टीकरण हेतु विज्ञापन देखें)